



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26—जनवरी 01, 2010 (पौष 5, 1931)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 26—JANUARY 01, 2010 (PAUSA 5, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई, दिनांक 19 नवम्बर 2009

बैंपवि. सं. आरईटी.बीसी. 61/12.02.001/2009-10--समय-समय पर यथासंशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा 2 दिसम्बर 2008 की अधिसूचना बैंपवि. सं. आरईटी.बीसी. 90/12.02.001/2008-09 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि 21 नवम्बर 2009 को प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र बैंक 8 सितंबर 2009 की अधिसूचना बैंपवि. सं. आरईटी. बीसी. 40/12.02.001/2009-10 में यथावर्णित आस्तियां भारत में बनाए रखेगा जिनका मूल्य किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में कुल निवल मांग और मियादी देयताओं के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

आनन्द सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 11 नवम्बर 2009

नं० 13 - सी0ए0 (परीक्षा)/ दिसम्बर /2009:--चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 (जो अधिसूचना संख्या-1 सी.ए. (7)/59/2001 दिनांक 28 सितम्बर 2001 के द्वारा संशोधित किया गया) के नियम-7 अनुसूची 'एफ' के रेगुलेशन 204 के अनुसार, दि कॉंसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि इनफोरमेशन सिस्टमस आडिट (आई0एस0ए0) कोर्स की निर्धारित परीक्षा (असेसमेन्ट टेस्ट) दिनांक 19 दिसम्बर 2009 को प्रातः 10.30 बजे से 2.30 बजे सांय तक निम्नलिखित केन्द्रों पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

परीक्षा केन्द्र:-

1. आगरा	21. जयपुर
2. अहमदाबाद	22. जलगांव
3. इलाहाबाद	23. जोधपुर
4. औरंगाबाद	24. कानपुर
5. बैंगलोर	25. कोल्हापुर
6. भीलवाड़ा	26. कोलकाता
7. भोपाल	27. लखनऊ
8. भुवनेश्वर	28. मेरठ
9. चंडीगढ़	29. मुम्बई
10. चेन्नई	30. गुजफरनगर
11. कोयम्बटूर	31. नागपुर
12. दिल्ली / न्यू दिल्ली	32. नासिक
13. ईरनाकुलम	33. पूना
14. गाजियाबाद	34. रायपुर
15. गोरखपुर	35. राजकोट
16. गोहाटी	36. रांची
17. गोवा	37. सेलम
18. ग्वालियर	38. सूरत
19. हैदराबाद	39. त्रिपुर
20. इंदौर	40. वाराणसी

परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है। यह परीक्षा इंस्टीट्यूट के केवल पात्र सदस्य जो कि पहले से ही पंजीकृत हैं के लिये है। इस परीक्षा (असेसमेन्ट टेस्ट) के लिये परीक्षा शुल्क 1000/- (एक हजार रुपये) मात्र है।

परीक्षा शुल्क की राशि का भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट द्वारा होगा जो किसी भी शेड्यूल बैंक का होना चाहिये। डिमांड ड्राफ्ट 'सचिव' दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया के पक्ष में होना चाहिये और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो। आवेदन पत्र उपयुक्त शुल्क के साथ इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह अपर सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में दिनांक 7 दिसम्बर, 2009 तक पहुंच जायें।

इस परीक्षा के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन पत्रों पर ही किया जाना चाहिये जो कि दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया के अपर सचिव (परीक्षा) के नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 100/- रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालय में भी उपलब्ध है और नकद भुगतान करने पर 16 नवम्बर, 2009 से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट की वेबसाइट डबलूडबलूडबलू आईसीआई.ओआरजी से प्रिन्ट करके परीक्षा शुल्क 1100/- रुपये डिमांड ड्राफ्ट के साथ भी भेजा जा सकता है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 7 दिसम्बर, 2009 है। आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपर सचिव (परीक्षा), नई दिल्ली को भेजा जाना है।

दिनांक 7 दिसम्बर, 2009 के पश्चात आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

जी० सोमाशेखर
अपर सचिव (परीक्षा)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2009

संख्या: एन-15/13/14/3/2009-यो० व वि०

(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरारण में महानिदेशक ने 1 सितम्बर, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट विधिसा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

केन्द्र

तिरुणलवेली जिला में

नांगुनेरी तालुक और

राधापुरम तालुक में वल्लियूर

केन्द्र

1. राधापुरम तालुक

(क) वल्लियूर

(ख) वल्लियूर साउथ

2. नांगुनेरी तालुक

(क) तलपति समुद्रम

आदि के अन्तर्गत आने वाले राजस्व गांव...

आर० सी० शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो० एवं वि०)

दिनांक 17 नवम्बर 2009

संख्या: एन-15/13/7/4/2008 -- यो0 एवं वि0

(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 सितम्बर, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

क्र०सं०	राजस्व ग्राम का नाम नगरपालिका सीमाएं	होबली	तालुक	जिला
1.	मदकरिपुरा	कसबा	चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग

आर० सी० शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो० एवं वि०)

दिनांक 23 नवम्बर 2009

संख्या: एन-15/13/15/3/2009-यो. एवं वि.

(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 सितम्बर, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा पश्चिम बंगाल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पश्चिम बंगाल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

“बाकुंडा जिला के मेजिया मौजा के क्षेत्रों को शामिल करके ”

आर० सी० शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

हैदराबाद, दिनांक 3 नवम्बर 2009

फाईल संख्या : 52.यू/15/15/01/07-हितलाभ-1

कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल 1951 को हुई बैठक में पारित किए गये संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक ने फाईल संख्या : यू-13/12/13/2005-पी टी एम आर (चिकित्सा-1) दिनांक 04.8.2008 तथा शाखा कार्यालय मैनुअल के चैप्टर-11, व पैरा-11, वरिष्ठ चिकित्सा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त, व क.रा.बी (साधारण) विनियम 1950 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपे जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, आंध्र प्रदेश द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

डाक्टर का नामअवधि (एक साल के लिए)केन्द्र का नाम

श्री डॉ. ए पेन्टय्या

03.11.2009 से 02.01.2010

तारनाका, एल.बी.नगर,
शिवरामपल्ली, चिक्कडपल्ली
कोमपल्ली(केन्द्र चिक्कडपल्लीशाखा कार्यालय)

डॉ. सुमन मुखर्जी

वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त

**तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
(तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड एवं पावरग्रिड का संयुक्त उपक्रम)**

सं० टी.पी.टी.एल/जी. ओ.आई. प्रैस/091124

दिनांक :-24.11.2009

शुद्धि पत्र

भारतीय राजपत्र, रजिस्ट्री संख्या डीएल (एन)-04/0007/2003-05 दिनांकित अक्टूबर 24 - अक्टूबर 30, 2009 भाग-III, खण्ड 4 (साप्ताहिक राजपत्र सं० 43) में तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित सूचना में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

पृष्ठ संख्या अनुच्छेद	पंक्ति/संख्या	वर्तमान रूप	शुद्ध रूप
6421 / अनुच्छेद -1	पंक्ति 3	भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1985	भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885
6422	पंक्ति 8/ संख्या 4	सगकलाग	सांगखलांग
6422	पंक्ति 23/ संख्या 2	टुमलौग टी.जी.	टुमसौग टी.जी.
6422	पंक्ति 26-27/ संख्या 4 संख्या 6 संख्या 7 संख्या 9	मेचीटी.जी. नाल टी.जी. पांटग टी.जी. छौटा चेगा-चेगा बस्ती	मेची टी.जी. नौल टी.जी. पाटौग टी.जी. छोटा चेंगा-चेगा बस्ती
6422	पंक्ति 28	नक्सलमारी	नक्सलबाडी
6422	पंक्ति 28-31/ संख्या 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या 6 संख्या 7 संख्या 8 संख्या 9 संख्या 10 संख्या 12 संख्या 13 संख्या 15	बेलागाच्ची टी.जी. शिरसिर टी.जी. लहसिंध मिर्जन्गला चाट जमिदगरी चाट जम्दार्गुरी धनिवानी धनिवानी चाट हवामल्लिक बिसिंध सेबदुल्ला बजरहरु घुस्सुर	बेलगाछी टी.जी. सिरसिर टी.जी. ल्हासिंध मिर्जंगला चाट जमीदारगुडीछाट जमीदारेगुडी धानीबानी धानीबानीछाट हवाईमल्लिक बीरसिंध सेवाडुल्ला बाराझाडू घुसरु

	संख्या 16 संख्या 17 संख्या 18 संख्या 19 संख्या 21	सस्तीयां सतभैया टी.जी. अहमदाबाद टी.जी. मुतिजंगला सिंधिभिता	सतभईया सतभईया टी.जी. अमदाबाद टी.जी. मुटीजंगला सिगीभीटा
6423	पंक्ति 1	खोरिबरी	खोरीबाडी
6423	पंक्ति 1-3/ संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या 6 संख्या 8 संख्या 9 संख्या 10 संख्या 11 संख्या 12 संख्या 13 संख्या 14 संख्या 15	धुलिया चाट जत्रु हथिठना बदल्मिता सुभाल्मिता गुअबरी नजर दूध सल्बरी चुयुर्मुचुर बगलाहगी सोनाचालानी भटगाक्च	दुलियाछाट जटरु हाथीडूबा बादलभीटा सुबलभीटा गुआबाडी नजीर दूधा सालबाडी चुचुरमुचुर बगुलाहागी सोनाचलनी भातगछ
6423	पंक्ति 7-10/ संख्या 7 संख्या 8 संख्या 11 संख्या 25	गंगगच छेवीडागी हागीवाडी बिभूलडागी	गंगागछ देवीडांगी डांगीबाडी बिभूलडांगी
6423	पंक्ति 10-16/ संख्या 26 संख्या 27 संख्या 34 संख्या 35 संख्या 36 संख्या 42 संख्या 44 संख्या 45	मुशीभीटा बतलागछ बनसवारी ऊदरागडी पाटेभारी धूमदनजर कुरीडागी डोगछी	मुंशीभीटा बंगलागछ बांसबाडी उदरागुडी पाटेश्वरी दूधमंजर कुरीडांगी डोगछी

	संख्या 62 संख्या 63	दूधौती बीजाभीठा	दुधौटी बिजलीभीठा
6423	पक्ति 18-24/ संख्या 10 संख्या 14 संख्या 15 संख्या 17 संख्या 18 संख्या 27 संख्या 36 संख्या 46 संख्या 47	नीकुछिबिल सिगीमारी रसियाटागी कालसिंगा हालुआडागा नाहरडागा भतियाडागी फारसाडागी बरदीहा	निकूछिबिल सिंधीमारी रसियाडांगी कालासिंगा हलुआडांगा नाहरडांगा भतियाडांगी फारसाडांगी बरडीहा

और अधिक विवरण एवं स्पष्टीकरण के लिए संपर्क करें:-

नाम: एस.एस. जामवाल

पद : प्रबन्ध निदेशक, टी.पी.टी. एल.

कार्यालय का पता : 143- 144, उद्योग विहार, फेस-4, गुड़गांव, हरियाणा- 122015

ईमेल पता : jamwal@tvptl.com

फोन नं. +91-124-4630825 / 23

फैक्स नं. +91-124-4780016

एस. एस. जामवाल
प्रबन्ध निदेशक, टी.पी.टी.एल.

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-05, the 19th November 2009

DBOD. No. Ret.BC.61/12-02-001/2009-10—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 24 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) as amended from time to time and, in partial modification of Notification DBOD. No. Ret.BC.90/12.02.0001/2008-09 dated December 02, 2008, the Reserve Bank of India hereby specifies that with effect from the fortnight beginning November 21, 2009, every Local Area Bank shall maintain in India assets as detailed in the Notification DBOD. No. Ret.BC. 40/12.02.001/2009-10 dated September 8, 2009, the value of which shall not at the close of business of any day be less than 25 per cent of the total net demand and time liabilities in India as on the last Friday of the second preceding fortnight.

ANAND SINHA
Executive Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, the 11th November 2009

No. 13-CA(EXAM)/ISA/J/2009—In pursuance of Rule 7 of Schedule 'F' to Regulation 204 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 (as amended vide Notification No. 1-CA(7)59/2001 dated 28th September 2001), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Information Systems Audit (ISA) Course Assessment Test will be held on 19th December, 2009 from 10.30 AM to 2.30 PM at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre as detailed below :—

Sl.No.	Centre Name	Sl.No.	Centre Name	Sl.No.	Centre Name
1.	Agra	14.	Ghaziabad	27.	Lucknow
2.	Ahmedabad	15.	Gorakhpur	28.	Meerut
3.	Allahabad	16.	Guwahati	29.	Mumbai
4.	Aurangabad	17.	Goa	30.	Muzaffarnagar
5.	Bangalore	18.	Gwalior	31.	Nagpur
6.	Bhilwara	19.	Hyderabad	32.	Nashik
7.	Bhopal	20.	Indore	33.	Pune
8.	Bhubaneswar	21.	Jaipur	34.	Raipur
9.	Chandigarh	22.	Jalgaon	35.	Rajkot
10.	Chennai	23.	Jodhpur	36.	Ranchi
11.	Coimbatore	24.	Kanpur	37.	Salem
12.	Delhi	25.	Kolhapur	38.	Surat
13.	Ernakulam	26.	Kolkata	39.	Tirupur
				40.	Varanasi

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason. The above Test is open only to eligible Members of the Institute who are already registered with the Institute for the said course. The fees payable for the above Assessment Test is Rs. 1000/-.

Payment of fees for the Assessment Test should be made only by Demand Draft. The Demand Draft may be of any Scheduled Bank and should be drawn in favour of "The Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi" only. Application together with the prescribed fee be sent so as to reach the Additional Secretary (Exams) at New Delhi on or before 7th December, 2009.

Applications for admission to the Assessment Test is required to be made in the prescribed form which may be obtained from the Additional Secretary (Exams), the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi-110002 on payment of Rs. 100/- per application form. The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained upon cash payment on or from 16th November, 2009. Alternatively, the format of application form can be downloaded from the website of the Institute viz. www.icaai.org and the cost of the application form of Rs. 100/- can be added to the Assessment Test fee of Rs. 1000/- and the Demand Draft for Rs. 1100/- has to be sent. The last date for receipt of duly filled in application forms is 7th December, 2009. The application together with the prescribed fee should be sent by Speed Post/Registered Post to the Additional Secretary (Exams.), New Delhi. The applications received after 7th December, 2009 will not be entertained under any circumstances.

G. SOMASEKHAR
Additional Secretary (Exams)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**New Delhi, the 16th November 2009**

No. **N-15/13/14/3/2009-P&D** : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1st September, 2009** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Tamil Nadu** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, **1954** shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Tamil Nadu** namely:-

CENTRE**AREAS COMPRISING THE REVENUE
VILLAGES OF**

VALLIYOOR IN RADHAPURAM
TALUK AND NANGUNERI TALUK
IN TIRUNELVELI DISTRICT

1. RADHAPURAM TALUK

- (a) VALLIYOOR
- (b) VALLIYOOR SOUTH

2. NANGUNERI TALUK

- (a) THALAPATHI SAMUDARAM

R.C. SHARMA
JOINT DIRECTOR (P&D)

New Delhi, the 17th November 2009

No. **N-15/13/7/4/2008-P&D** : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1st September, 2009** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Karnataka** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Karnataka** namely:-

S. No.	Name of the Revenue Village or Municipal Limits	Hobli	Taluk	District
1.	MADAKARIPURA	KASABA	CHITRADURGA	CHITRADURGA

R.C. SHARMA
JOINT DIRECTOR (P&D)

New Delhi, the 23rd November 2009

No. **N-15/13/15/3/2009-P&D** : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1st September, 2009** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **West Bengal** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **West Bengal** namely:-

"AREAS COMPRISING MOUZAS OF MEZIA IN THE DISTRICT OF BANKURA".

R.C. SHARMA
JOINT DIRECTOR (P&D)

Hyderabad-500063, the 3rd November 2009

File No. 52/N/11/12/02/2008-09/SMC, dated: 03/11/2009: In pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the power of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to me vide Director General order on file No.Pt.file-U-13/12/13/2005-PTMR-(Med.I), dated 04/08/2008, vide Para-11, Chapter-XI of Local Office Manual, SSMC/SMC. I hereby authorize the following doctors(s) to function as Medical authority at a monthly remuneration at a in accordance with norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them, when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>PERIOD</u> <u>FROM</u> _____ <u>TO</u> _____	<u>NAME OF CENTRE</u> <u>PLACE / DISTT/ STATE</u>
Dr. A. PENTIAIAH	03/11/2009 02/11/2011	1.TARNAKA, 2. L.B. NAGAR 3. SHIVARAMPALLY 4. CHIKADPALLY 5. KOMPALLY (CENTRE AT CHIKKADPALLY OFFICE)

SUMAN MUKHERJEE
Senior State Medical Commissioner